

लय उपखण्ड.....अधिकारी.....कठूमर जिला अलवर

2/135/19

तारीख रजु.....

बनाम

तिन वगैरा

हरख्याल वगैरा

सं	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जबाव पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आंराजी ख.न 1022,र00.29 948 र0 0.49 1020 र0 0.42 1021 र0 0.28 970,971,986 किता3 रकवा 1.35 हे0 तथा 980,981,982 किता 3 रकवा 1.23 हे0 ग्राम सौंख तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात की रहन व्यय ना करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 13.8.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलव हो पत्रावली दिनांक 13.8.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>पत्रावली आज पेश की</p> <p>15/10/19</p> <p>वकील सायल (उपस्थित)</p> <p>साथिक आदेश दिनांक 22/16/19</p> <p>की पालना में पत्रावली वास्ते रजु</p> <p>दिनांक 13/12/19 को पेश हो (फायल)</p> <p>(8)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>19/12/19</p> <p>मुलाव कुपेकन वर0/P.O.</p> <p>वाहव</p> <p>पत्रावली दिनांक 22/12/19 को पेश हो।</p>	<p>364</p> <p>1.7.19</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत की तारीख

11/6/14

वकील जमी उपरिष्ठत रही अपने वकील वउरके
जमी को का-2 काकार डिलाडि मडि
कोडि उपरिष्ठत रही अपने अतः जमी को
जमीना 14 म-2000 वकील जमी के अक
पैली अक एजरी में रही जेत पक्यसि
ठिया जाता है) फजकली मेमल सुमा होवे
उरि पक्ये कउ हो सुमा

SDJY
11/6/14

अलय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

1/147/19

तारीख रजु.....

ततिन वगैरा

बनाम

हरख्याल वगैरा

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसकी तामील में ज
-----------	-----------------------------------	---

08.2019

वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री भवानी शंकर शर्मा एड0 ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजि0 हो। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.08.2019 को पेश हो।

363
1.7.19

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

15/10/25 पत्रावली अज पेश की उपस्थित।
समिक आदेश दिनांक 27/6/19
को पालना में पत्रावली वासी हलकी
दिनांक 19/12/19 को पेश हो P.F पेश है

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

19/12/25 कठुवाव कोरीकेन एप0/P.O.
वाहव 20/12/25
पत्रावली दिनांक 20/12/25
को पेश हो।

20/2/20 कठुवाव कोरीकेन एप0/P.O.
वाहव 20/2/20
पत्रावली दिनांक 20/2/20
को पेश हो।

9.4.20 कठुवाव कोरीकेन एप0/P.O.
वाहव 9.4.20
पत्रावली दिनांक 9.4.20
को पेश हो।

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
571227	<p>करीब 5121 उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 27/6/2019 की पालना में पत्र नी वास्ते 13/5/24 को पत्र हो।</p> <p>रखण्ड अधिकारी कतमा (कतमा)</p>	
131524	<p>करीब 5121 उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 27/6/2019 की पालना में पत्र नी वास्ते 16/5/24 को पत्र हो।</p> <p>रखण्ड अधिकारी कतमा (कतमा)</p>	
161524	<p>करीब 5121 उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 27/6/2019 की पालना में पत्र नी वास्ते 14/6/24 को पत्र हो।</p> <p>रखण्ड अधिकारी कतमा (कतमा)</p>	
11614	<p>करीब 5121 उपस्थित नहीं थापे करीब 921के गरीबे) का-2 आवाज दिजाई गरीबे उप-0 नहीं थापे कर; डाया करीब 921 के अडक पैली - अडक हाजीने खारिज दिजा जाता है पत्रसकी फौजल प्रकाश देकर उके नमूने के कम देकर दिजा प्रकिये ठेक गजाली 13/24</p> <p>रखण्ड अधिकारी कतमा (कतमा)</p>	